

शराबबंदी वाले बिहार में माफिया चला रहा था नकली शराब फैक्ट्री, पुलिस को मिला जखीरा

बिहार (Bihar liquor) में सरकार ने शराबबंदी कर रखी है, इसके बावजूद शराब माफिया बाज नहीं आ रहे हैं. यहां होली से पहले चलाए गए अभियान में टीम ने छापेमारी की. इस दौरान बड़ी मात्रा में देसी व विदेशी शराब की बोतलें, रैपर, ढक्कर, QR कोड सहित सैकड़ों नकली विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं.



बिहार के पूर्वी चंपारण उत्पाद अधीक्षक सौरभ सुमन यादव के नेतृत्व में होली के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी को लेकर आज पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के हथियाही गांव में मक्के के खेत में छापेमारी की गई. इसमें अवैध शराब फैक्ट्री (fake liquor factory) का भंडाफोड़ किया गया. वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह मद्यनिषेध अधीक्षक सौरभ सुमन यादव ने बताया कि हथियाही गांव में अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन की सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने छापा मारा.

इस कार्रवाई में उत्पाद इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अंकेश राज गौड़ के साथ दरोगा मनीष सर्राफ, कुंज बिहारी प्रसाद शामिल रहे. कार्रवाई में खतरनाक स्पिरिट और सीलिंग मशीन के साथ अलग-अलग ब्रांडों के देशी शीशी, सीलिंग मशीन, विंडीज लाइम व ब्लू लाइम का नकली रैपर, QR कोड, दो बोतल कैरेमल, नकली ढक्करन, खाली शीशियां बरामद की गई हैं. उन्होंने कहा कि कार्रवाई का यह अभियान सख्ती के साथ आगे भी चलता रहेगा. इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में बोतलें, ढक्करन, हरियाणा निर्मित रैपर, फर्जी QR कोड व भारी मात्रा में खतरनाक स्पिरिट और शराब बनाने के उपकरण सहित सैकड़ों तैयार की हुई डुप्लीकेट विदेशी बोतलें जब्त की हैं.

Source: <https://www.aajtak.in/crime/police-and-intelligence/story/bihar-motihari-local-news-mafia-running-fake-liquor-factory-prohibition-police-chose-lcla-1428033-2022-03-13>